

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 31.10.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

05 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना को0 नगर नगर पुलिस ने 01, थाना छपिया पुलिस ने 01, थाना वजीरगंज पुलिस ने 01 व थाना कटराबाजार पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 31.10.2022

जनपदीय पुलिस ने की अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 07
अभियुक्त गिरफ्तार, 75 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने थाना क्षेत्र में दबिश देकर अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण कर रहे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे 10 लीटर कच्ची बरामद, थाना कौडिया पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना मोतीगंज पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना को0 नगर पुलिस 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब व थाना वजीरगंज पुलिस ने 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 25 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध संबंधित थानों द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 31.10.2022

बलवा कर मारपीट करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान जमीनी विवाद में बलवाकर मारपीट करने के वांछित अभियुक्त-विजयनन्दन को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 22.10.2022 को अपने परिजनों के साथ मिलकर वादी राकेश कुमार पाण्डेय पुत्र त्रिभुवन दत्त पाण्डेय नि० उत्तरी शुकुलपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को जमीनी विवाद के चक्कर में गाली-गुप्ता देते हुए मारा-पीटा था तथा जान से मारने की धमकी भी दी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना धानेपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विजय नन्दन पुत्र घनश्याम नि० उत्तरी शुकुलपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-259/22, धारा 147,323,504,506,327 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० अयोध्या सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 31.10.2022

मिशन शक्ति अभियान के तहत दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त अरविन्द कुमार गिरि उर्फ छोटू को केशवपुर पहड़वा से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त मु०अ०सं०-87/10, धारा 498ए,304बी,494 भादवि व 3/4 डी०पी०एक्ट में पिछले लगभग 12 सालों से वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें लगायी गयी थी। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अरविन्द कुमार गिरि उर्फ छोटू पुत्र जगन्नाथ गिरि नि० महादेवा मौजा केशवपुर पहड़वा थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-87/22, धारा 498ए,304बी,494 भादवि व 3/4 डी०पी०एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० अवधेश यादव मय टीम।